



तरबूज - खरबूज प्रबंधन



क्र.	बोने से पहले	दवा	मात्रा
1)	बेसल खुराक (रोपाई से पहले बेड में भरी जाने वाली खुराक) प्रति एकड :	अच्छी तरह से विघटित गोबरखाद या ओरिजीनो (जैविक खाद) + डि.ए.पी. या सुपर फॉस्फेट + एम.ओ.पी. + रूटांझा	8 ते 10 टन 10 ते 20 बॅग 100 कि./ 200 कि. 25 किलो 4 किलो

क्र.	रोपाई के बाद	खाद	देने की मात्रा	उद्देश
ट्रेंचिंग के माध्यम से उर्वरक और कीट प्रबंधक (प्रति एकड)				
1)	2 से 3 दिनों के बाद	कंसर्ट + ट्रायकोडर्मा + प्रोबियोन	1 लिटर 1 किलो / लिटर 500 मिली	मर / डम्पींग को रोकने के लिए प्रिव्हेटिव्ह उपाय
2)	8 से 10 दिनों के बाद	संचार-४० + थायफिनेट मिथाइल + थायोमिथोक्झोम (३०% एफ.एस.) + लिओनार	500 मिली 250 ग्राम 500 मिली 500 ग्राम	जमिन से फफुंद एवं किड नियोजन
3)	15 दिनों के बाद	अॅग्रिप्लेक्स - ओए + 12:61:00 + लोहाड्रिप	1 लिटर 3 किलो 500 ग्राम	जोमदार और हरी शाखाये वृद्धी हेतु
ड्रिप द्वारा उर्वरक और कीट-रोग प्रबंधन (प्रति एकड)				
1)	20 दिनों के बाद	मिंगल + थायोग्रिन + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट	2 किलो 3 किलो 5 किलो	सुक्ष्म और दुय्यम पोषक तत्वों की पुर्ति करने हेतु
2)	25 दिनों के बाद	12:61:00 + 00:00:50	4 किलो 2 किलो	NPK पुर्ति और तत्व उपलब्धता हेतु
3)	30 दिनों के बाद	कॅल्शियम नायट्रेट + झिलबोर + अॅग्रिप्लेक्स-ओए	5 किलो 250 ग्राम 1 लिटर	उत्कृष्ट फुल और फल सेटिंग हेतु
4)	35 दिनों के बाद	मिंगल + थायोग्रिन + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट	2 किलो 2 किलो 5 किलो	संतुलित तत्व प्रदान करने के लिए
5)	40 दिनों के बाद	00:60:20 या 00:52:34 + प्रोबियोन	4 किलो 1 लिटर	फॉस्फोरस, पोटाश पुर्ति एवं जड वृद्धी हेतु

क्र.	रोपाई के बाद	खाद	देने की मात्रा	उद्देश
6)	45 दिनों के बाद	13:00:45 + कैल्शियम नायट्रेट + झिलबोर	3 किलो 5 किलो 250 ग्राम	फल को फटनेसे बचाये
7)	50 दिनों के बाद	00:52:34 या 00:60:20 + अॅग्रिप्लेक्स-ओए	4 किलो 1 लिटर	फलों में वजन बढ़ाने के लिए
8)	55 से 65 दिनों के बीच	पॅशन + सिमिग्रो / केमिनो + प्रोबियॉन	5 किलो 1 लिटर 1 लिटर	फलो का वजन, कलर और चमक बढ़ाने के लिए दो बार
छिड़काव से उर्वरक और कीट प्रबंधन (प्रति एकड़)				
1)	8 से 10 दिनों के बाद	19:19:19 + प्रोबियॉन + कॉन्फिडॉर	2.5 ग्राम 2.5 मिली 1 मिली	शाखाये वृद्धि हेतु किटनाशकों
2)	15 से 20 दिनों के बाद	स्प्राऊट + एक्सीड + 13:40:13 + मकडीनाशक	1.25 मिली 1.5 ग्राम 3 ग्राम मात्रा से	शाखाये वृद्धि कर के फुलो की संख्या बढ़ाने के लिए मकडीनाशक
3)	22 से 25 दिनों के बाद	न्युट्रीबॉन ३०++ + मेलकॉन-सुपर + अॅन्ट्राकॉल + अबासीन	2.5 मिली 1.25 मिली + 2.5 ग्राम 0.5 मिली	संतुलित तत्व पुर्ति हेतु किड या फफूंदनाशक हेतु
4)	25 से 30 दिनों के बाद	झिकाबोर / या कैल्बि-एफ + कैल्मिनो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + डायफेनकोनाझॉल + इनफ्युज	2.5 मिली / 1 ग्राम 0.75 ग्राम / 1 ग्राम 3 ग्राम 0.5 मिली + 1 मिली	उत्कृष्ट फुल और फल सेटिंग हेतु मधुमक्खियों आने के लिए
5)	32 से 35 दिनों के बाद	व्हॅटिला + 00:52:34 + के2-व्हायब्रंट + मेटालैक्सील + मॅन्कोझेब + इनफ्युज	1.25 मिली 3 ग्राम 1 ग्राम 2.5 ग्राम 1.0 मिली	उत्कृष्ट फुल और फल सेटिंग हेतु मधुमक्खियों आने के लिए
6)	38 ते 40 दिनों के बाद	झिकाबोर + कैल्मिनो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + जैविक किडनाशक + इनफ्युज	2.5 मिली 0.75 ग्राम 3 ग्राम मात्रा से + 1 मिली	उत्कृष्ट फुल और फल सेटिंग हेतु मधुमक्खियों आने के लिए
7)	45 दिनों के बाद	00:५२:३४ + (सायमॉक्झेनिल + मॅन्कोझेब) + इमामेक्विटन बोन्डोईट	3.5 ग्राम 2.5 ग्राम 0.5 ग्राम	फल के वजन और वजन को बढ़ाने के लिए फफुंदनाशक और किटनाशक हेतु

सुजाव : यदि रोपाई के बजाय बीज लगाए जाते हैं, तो उपरोक्त अनुसूची को चार से पांच दिनों के बाद इस्तमाल किजिये ।

* उपरोक्त सभी जानकारी हमारे ज्ञान और अनुभव के अनुसार दर्शायी गई है, हालांकि उत्पाद का उपयोग, उसका भंडारण, रख-रखाव, छिड़काव हमारे नियंत्रण से बाहर है। अथवा हम किसी भी हानि के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकेंगे।



एग्री सर्च® (इंडिया) प्रा.लिमिटेड
जहाँ हर अवधारणा विज्ञान पर आधारित है

CIN : U73100MH2000PTC124501

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

96079 10918 / 83